



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 295] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 11, 1982/आश्विन 19, 1904
No. 295] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1982/ASVINA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1982

सं. 223/82-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 595(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 129 द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
11 अक्टूबर, 1982 से ही सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील
अधिकरण का गठन करती है।

[फा. सं. 437/11/82-सीशु -4]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th October, 1982

No. 223/82-CUSTOMS

G.S.R. 595(E).—In exercise of the powers conferred by section 129 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby constitutes the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal with effect on and from 11th day of October, 1982.

[F. No. 437/11/82-Cus IV]

सं. 224-सी. शु./82

सा.का.नि. 596(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 91 सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1963 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

“उक्त अधिसूचना में” सीमाशुल्क अपील कलक्टर “शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं सीमाशुल्क कलक्टर (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 437/12/82-सी. शु.-4]

जेड. बी. नागरकर, अव. सचिव

(NO. 224/82-CUSTOMS)

G.S.R. 596(F).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 91-Customs, dated the 1st March, 1963, namely :—

In the said notification, for the words “Appellate Collector of Customs”, wherever they occur, the words and brackets “Collector of Customs (Appeals)” shall be substituted.

[F. No. 437/12/82 Cus IV]

Z. B. NAGARKAR, Under Secy.